



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{4}{8} \times \frac{4}{5} =$$

$$\frac{2}{9} \times \frac{6}{5} =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} =$$

$$\frac{3}{6} \times \frac{7}{5} =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{6}{5} =$$

$$\frac{2}{6} \times \frac{3}{4} =$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{5}{7} =$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{2}{7} =$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{6}{8} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{4}{8} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{2}{9} \times \frac{6}{5} = \frac{4}{15}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{6} \times \frac{7}{5} = \frac{7}{10}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{6}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{2}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{5}{7} = \frac{20}{63}$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{2}{7} = \frac{10}{63}$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{6}{8} = \frac{9}{28}$$